

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

RAJIV RANJAN SINGH VEER KUANWAR SINGH NAGAR KATIRA ARA BHOHPUR ARRAH 802301 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No 12040300037210
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR0603250843
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No 078426078
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 12040400000218
		शाखा का नाम/Branch Name ARRAHBIHAR
योजना / Scheme FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)		
नामांकन / Nomination N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.		
पैन नंबर / PAN No. ASHPS4088D		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation SELF		
संयुक्त धारक / Joint Holder (s)		
अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)		
नियन चिह्नित / Lien Marked N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1546500	06-03-2025	6.85	12 Months 0 Days	06-03-2026	1655188

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है. 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज़ i. यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii. कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/ 15 एच/ 15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए. अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज़ i. रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा. ii. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए. 7. गैर प्रतिदेय जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause: i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident Individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause: i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed
--	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge to Executive Engineer, RWD Works Division



RAJIV RANJAN SINGH VEER KUANWAR SINGH NAGAR KATIRA ARA BHOHPUR ARRAH 802301 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No 12040300037209 सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR0603250736 कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No 078426078 व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 12040400000218 शाखा का नाम/Branch Name ARRAHBIHAR
योजना / Scheme FIXED DEPOSIT - RIRD(RES) नामांकन / Nomination N नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No. पैन नंबर / PAN No. ASHPS4088D परिचालन पद्धति / Mode of Operation SELF निधन चिह्नित / Lien Marked N	संयुक्त धारक / Joint Holder (s) अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
10887600	06-03-2025	6.85	12 Months 0 Days	06-03-2026	11652778

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1 ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है। 2 स्वतः नवीकरण कर्तव्य। 3 यदि अवधि अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। 4 कोई निदेश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा। 5 फॉर्म 15 जी और 15एच किफाई निवासी खातों के लिए है। 6 निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पुरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा खाते पर कर कटौती की जाएगी। 7 फॉर्म एवं कवच वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा। 8 परिपक्वता आहरण कर्तव्य। 9 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% बंद का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। 10 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए। 11 गैर प्रतिवेद्य जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।	1 Rate of Interest is in percentage per annum 2. Automatic Renewal Clause: i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/15H/15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5 Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7 In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed
---	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge to Executive Engineer, RWD Works Division, Arrah

